बाडमेर

विधानसभा क्षेत्र में लगेंगे डेढ़ लाख पौधे

🕨 राजस्व मंत्री की अंगुवाई में पौधारोपण के लिए अनूठी पहल

बाडमेर। हरियालो बायत् अभियान के तहत शक्रवार को बायतु विधानसभा क्षेत्र में एक घंटे में डेढ़ लाख पौधे लगाए जाएंगे । इस दौरान मुख्य कार्य म गिड़ा पंचायत समिति की रतेऊ ग्राम पंचायत में होगा। बचारत सभारा प्रमुख्य स्टाइड वाल्य प्रमुख्य स्टाइड 5200 पात राजाए यहारों। राजरत मात्र व बारा हु विधायक रहेंगे स्टी की मुक्ति जनजन का हो एक ही सपना, हरा भरा हो बायतु उपना के तहत बायतु दिधानराभा की तीनों पंचायत सीमितयों में एक-एक पंचायत का यथन करते हुए श्यानीय प्रधान, दिकास अधिकारी पूर्व बर्नोंक स्तरीय अधिकारियों की मौजूबनी



मख्यालय पर कार्यं म आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान लगाए जाने वाले



पौधों के संरक्षण के लिए अलग-अलग कार्यकर्ताओं व स्वंय सेवी संस्थाओं पाधा क सरक्षण काराप, अरागा-अराग कायकताओ व स्वय सवा संस्थाओं व कर्मचारियों को जिम्मेदारी देते हुए पीधों के संस्थाण की शायश भी दिलाई जाएगी। राजस्य मंत्री हरीश चौधरी के मुताबिक वैक्षिक महामारी कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की भारी मारामारी रही। इसको ्देखते हुए जनजीवन को यह अच्छी तरह समझा दिया कि केवल जानने से कॉम जनजावन का यह अच्छा तरह समझा दिया कि कवल जानन से काम नहीं क्लोगा बेलिक कातावरण में आवसीजन की पर्याम मात्रा मुश्लित हो इसके पर्यावरण को बचाना होगा और अधिक से अधिक पेड़ पीधे लगाकर पर्यावरण का सन्तुलन बनाए रखना अतिआवस्थक है। इसी अवधारण को साकार करने के लिए अपनी विभागसमा श्रेव में। नाखा 50 हजा प्रीधे पीधे लगाकर इस अधियान के तहत विधानसभा की सभी ग्राम पंचायत पांच ट्लाकर इस आभवान क तहत (वधानसभा का सभा ग्राम पंचारत मुख्यालयों पर वृद्ध रत्ता पर पोधारण किया जाएगा वहीं जिला मुख्य महेंद्र चौधरी ने बलाया कि इस वृद्ध रत्ता पर आयोजित होने वाले पोधारीण कार्य म को क्या के कार्य म को क्या के प्राचित्र के विद्यालयों, अन्य सरकारी भवनों, घरो में विवरित किए गए हो। पोधारीण में रहेंगी विभिन्न संस्काओं की भागीवारी हरियालों बावतु अभियान में बुख कहारी, प्यास्पञ्चलें का अन्य सर से प्यास्पार्थ में से विवरित किए गए से। पोधारीण में रहेंगी विभिन्न संस्काओं की भागीवारी हरियालों बावतु अभियान में बुख कहारी, प्यास्पञ्चलें का अन्य वार्ष सी संस्थाए पर्धी विभाने के साथ पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेंगे।

### सतर्कता समिति की बैठक ३ सितम्बर को

जागरूक टाइम्स संवाददाता बाइमेर। जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता स्मिति की बैठक जिला कलक्टर सामात का बठक । जांचा कलक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से प्रथम शुं वार 3 सितम्बर को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट काफ़िन्स हॉल में आयोजित की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विचाराधीन प्रकरणों में की गई कार्यवाही की पालना रिपोर्ट 31 अगस्त तक भिजवाने तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर संबंधित पंचायत समिति कार्यालय में वीसी के माध्यम से बैठक में भाग लेने के निर्देश दिए है।

### विभिन्न दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कुल 12 लाख की आर्थिक सहायता

जागरूक टाइम्स संवाददाता बाइमेरा विभिन्न दुर्घटनाओं में में व्यक्तियों की मृत्यु को जाने तथा उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से 12 व्यक्तियों को कुल 12 लाख रूपये की आर्थिक सहावता स्यीकृत की गई है। जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन, सहावता एवं नागरिक सुरक्षा लोक बंधु ने बताया कि जिले की विभिन्न तहसील क्षेत्रों के विभिन्न वहसील क्षेत्रों गरूक टाइम्स संवाददाता के विभिन्न दुर्घटनाओं में 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने से उनके परिजनों को एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की गई है।

**बाड़मेर।** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिला एवं

बच्चो के स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए बच्चा के स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर गुरुवार को प्रसृति नियोजन दिवस का आयोजन किया गया, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकरी व्हें प्रीत मोहिन्दर

सिंह ने बताया की जिले में आयोजित टीकाकरण सत्र की मोनिटरिंग जिल टाकाकरण संत्र का मानिटारंग जिला स्तर एवं खण्ड स्तर से की जा रही है, अधिक जोखिम वाली महिलाओ का चिन्हीकरण कर उच्च चिकित्सा

क्ता प्रमुक्तरण कर उच्च विकास संस्थान पर रेफर करना, गर्भवती महिला एवं बच्चों को वजन, ब्लड प्रेशर, सुगर, खर्यब्रिटीज, आदि जाँच करने हेउ पाबंद किया गया, डॉ सिंह ने टीकाकरण दिवस पर सेवाये दे रही महिला

स्वास्थ्य कार्यकर्तुता एवं आशा सहयोगिनियों के कार्य की प्रशंसा की, जिला आशा समन्वयक

# मधुमेह जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन



**बाड़मेर।** सेवा सप्ताह के तहत लायंस क्लब बाड़मेर द्वारा श्च ब्यान, मशुरासन, शवासन , कपालभाति , प्राणायाम इत्यादि विभिन्न योगासन करने चाहिए। साथ ही खाने पीने में जो बाजरा , करेला इनका सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। डा विश्नोई ने डेरी प्रोडक्ट को बंद करने की मधमेह जागरूकता अभियान का नजुन जानस्विता जानजान का आयोजन ब्रह्म कुमारी आश्रम संचालिका बीके बबीता बहन के मुख्य आतिथ्य में महावीर नगर स्थित ब्रह्माकुमारी आश्रम नगर स्थित ब्रह्माकुमारी आश्रम में किया गया। इस अवसर पर मधुमेह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में डा पंकज विश्नोई ने मधुमेह डावर्यक्रों के आधुमिक जीवन शैली से होने जाती तुए मधुमेह से होने वाले लक्षण, काण तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में बारों की से जानकारी वी डॉ. ने औं प्रोडबर को बंद करने की सलाह दी हुए खाना खाने के बाद बाद दिन में नहीं सोने की सलाह दी। वहीं उन्होंने बलाया कि मन्दा होंगे की सलाह दी। वहीं उन्होंने बलाया कि मुस्त हुए को हुए को हुए के हुए के स्वाप्त कर सुमने एवं नियमित व्यायाम करने से मधुमेह करेट्रेल हाता है। इस दौरान उपस्थित मधुमेह के रीएंगें को निशुल्क मधुमेह के रीएंगें की निशुल्क मधुमेह के रीएंगें की निशुल्क मधुमेह के रीएंगें की निशुल्क मधुमेह की दबाई बाति की महिलाई की स्वाप्त का उन दवाइयों की मात्राएं एवं के लेने का तरीका भी मात्राएं एवं के लेने का तरीका लींबर कला के उरायश्व एडंगोंकर मुक्कें एडंगोंकर में म बाराका से जानकारा दी। अ विश्नोई ने आमजन को मधुमेह डायबिटीज होने के कारण - जैसे आधुनिक दिनचर्या, नियमित रूप से ज्यादा खाना खाते ही सोना, तनाव, इन कारणों से खयबिटीज भी मर्ताजों को बताया। लियिस बरुताब के अध्यक्ष एक्योकर मुकेगा जैन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि लियिस करना पिछले कई वर्षों से मामाजिक सरोकरा, विभिन्न मेडिकल कैंग्र, पर्यावरण सरेखण, शिक्षा, निकेत्सा इत्यादि श्रेत्र में कार्य म आयोजित कर श्रेत्र में कार्य म आयोजित कर में महत्ती भूमिका निमा रहा है। कार्य म की मुक्त अतिथि ब्रह्म कुमारी आश्रम की ब्रहिन बर्बाता ने तनाव, इन कारणा स अधाबदाज होती है। वहीं डायांबदीज होने पर निम्न लक्षण सामने आते हैं - जैसे बार-बार प्यास लगना, बालों का झड़ना ,शरीर में सुस्ती ,थकावट रहना, बार बार भूख लगना , बार - बार पेशाब, वजन का घटना, - बार पशाब, वजन का घटना, यह सभी लक्षण डायबिटीज होने पर सामने आते हैं। डॉ पंकज विश्नोई ने आयुर्वेद डायबिटीज मधुमेह के रोगी को व्यायाम की सलाह देते हुए कहा

राकेश भाटी ने बताया की गुरुवार को कपुरडी, बोधिया जागीर, भाडखा, खेड़, बालोतरा, सिवाना, सिणधरी में टीकाकरण दिवस

रियणध्ये में टीकाकरण दिवस का आरसीएचओं डी पी.एम. सिंह, हेल्थ ऑफिसस यूनिसेफ डी अनुसाग जोशी, ऑदिल अनिनक्षेत्र, बेंबिलां, इन्दास्त मिंह एवं गहुल सैनी एवं गकेश भारी द्वारा आक्रसिक्क निश्चण किया गया, निरिक्षण के दौरान उपस्थित एएनएम को मायद किया की स्वयं के मोबाईल में ओईकी एप्प के माण्यम से टीकाकरण टिवस की सम्बन्ध मायदिक सं

दिवस की सुचना अपडेट करे, साथ ही आरसीएच रजिस्टर में सर साथ हा आरसाएच राजस्टर म सत्र के दोरान पूर्ण हुए टीकाकरण की सुचना अपडेट करे, एवं आगामी टीकाकरण दिवस पर उपस्थित होने के लिए गर्भवती महिला एवं

परिजनों को आवशयक रूप से जानकारी देवे।

'प्रसृति नियोजन दिवस पर गर्भवती महिला

. एवं बच्चों को दी स्वास्थ्य सेवाएं'

कहा की आजकल के इस भागदौड़ भरे युग में अनियमित जीवनशैली के चलते जो श्रीमारी सर्वाधिक लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। मधुमेह को धीमी मौत भी कहा ह । मधुमह को धोमा मात भा कहा जाता है। यह ऐसी बीमारी है जो एक बार किसी के शरीर को पकड़ ले तो उसे फिर जीवन भर नहीं छोड़ती है। अतः पूरी सावधानी के खानपान, नियमित व्यायाम इत्यादि पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। इस पर ख्यान दना बहुद जरूर हो। इस अवसर पर लाग्यंस कलब अध्यक्ष मुकेश जैन एडवोकेट, सुनीता पारख, डॉ पंकज विश्नोई, शोखर जैन, मनोज आचार्य, सचिव संजय संकल्पेचा, रणवीर भाद्र, संगीतकार सुरेश भाई, एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

### जिले के प्रभारी मंत्री विश्नोई 28 को बाड़मेर आएंगे

बाडुमेर आएंगे बाडुमेर। वन एवं पर्यवरण राज्यमंत्री (स्वर्तन्न प्रभार) तथा जिल के प्रभारी मंत्री सुखराम जिरमोंड अपनी दो दिस्सीय याजा पर शनिवार को बाडुमेर आएंगे। निर्धारित कार्य म के अनुसार वन एवं पर्यवरण राज्यमंत्री तथा शनिवार 28 अगरत को सार्य से अंगे जैसलमेर से प्रश्वान कर सार्य 6.30 बजे बाडुमेर पहुंचेंगे तथा सामाजिक कार्य म में भाग लेने के पश्चात् राजि शिक्षाम बाडुमेर में केरी। प्रभारी मंत्री शर्टनी संविधान करेंगे। प्रभारी मंत्री विश्नोई रविवार करगा प्रभारा मन्ना विश्ताइ राववार 29 अगस्त को प्रातः 10 बजे स्वर्गीय लाधुराम विश्तोई की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम् में भाग लेने के बाद बाडमेर से दोपहर 2 बजे जयपर के लिए प्रस्थान करेंगे।

### आम सूचना

बरीया बेबी परित तारायंक्ती जाति लुझर निवासी सभी जिला पानी राजा इस अम्म सूचना के जरीये हर आम व शतरा को सूचित करती हु कि मेरे वो पुत्र प्रभु लाल व किनोब है। मेरे बड़ा पुत्र प्रभुल्तन मेरे कहने में लड़ी हैं। मेरा पुत्र प्रभु लाल पिछले 4 बजो हैं भी ज्वादा समय से मेरे से अलग निवादा कर रख है। मेरा पुत्र प्रभुलाल अस्ति स्मेर मेरे लाथ आपीटा करता है। तथा जाती अनेच करता है। व मेरी रोमान्यकरी कर वेहानत लगभग करता है व मेरे आहा पत्नन में नहीं है। मेरे पति तारायंक्ती का बेहानत लगभग करता है व मह जाने बात में नहीं हो हैं हैं 10 वर्ष पूर्व हो हुंका हैं। मेरी व मेरे पति की तमस्त चल व अपन सम्पति में से मैं रवेखा से एवं बिला किसी बबाव के मेरे बड़े पुत्र प्रमुलाल को बेबस्वल करती हु मेरी व मेरे पति की समस्त चल व अचल सम्पत्तियों में किसी प्रकार का कोई अन्य व्यक्ति सहव्यहार नहीं करें अन्यथा उससे होने वाली समस्त हानि की जिम्मेवारी उसके स्वयं की रहेगी। सूचित रहें।

## ME DEPARTMENTIPORTS & TRANSPORTI मृह विमाग (बंदरे व परिवहन) MANARASHTRA MARTIME BOARD महाराष्ट्र मेरीटाईम होर्ट महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड

## E-Tender Notice- (Year - 2021-2022)

i o	Name of Work	Cost of Tender in Rs.	Earnest Marey Amount in Rs.	Black Tender form amount in rs.	Time limit for Completion of Work
1.	Repairs of RPO Office at Mondy), Tol and Dist. Romagini. (Development Marine IV Training Institute at IPO office Manday)	1,09,93,961/-	1,10,000/-	1,180/-	12 Months (Including Monseon)
2.	Repair of Jetty of Plashet, Tal Guhagar Dist. Refragain	37,50,706/-	38,000/-	590/-	9 Months (Including Mansago)

# राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सदस्य पारधी आज बाडमेर आएंगे

प्राप्त भारवा आज बाइम्पर अप्पा बाइमेर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाव रामनाथ परधी सुक्रवार 27 अगस्त को बाइमेर आएंग। वे अनुसूचित जाति अत्यावार पीड़ियों की सुनवाई करेंग एवं अधिकारियों की बैठक लेंगे। निभारित कार्यक्रम के अनुस्तर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग स्टस्य सुभाग रामनाथ पापसी एवं उनके निजी स्विच्च नवीन रोहित्य 27 अगस्त को जोधपुर से प्रस्थान कर सार्थ 6 बजे बाइमेर पहुँचेंगे तथा सर्विट हाउस बाइमेर में अनुसूचित जाति पीड़ितों की सुनवाई करेंगे तथा सार्व विकास बाइमेर में करेंगे। ये प्रनिवार 28 अगस्त को प्रात् 9 बजे सम्पाणि आयुक्त, महात्रिरोक्षक पुलिस, जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं अधिकारियों के साथ बैठक लेने के बाद जोधपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

# पेंशन प्रकरणों की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आज्

बाड़मेर। जिला स्तर पर बकाया पेंशन प्रकरणों की त्रेमासिक बैठक अब गुक्रवार 27 अगस्त को दोपहर 1 बजे कलेबस्ट्रेट काफेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी। लेखा अनुभाग के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि पूर्व में उक बैठक 27 अगस्त को प्रात: 11 बजे रखी गई थी जो अब 27 अगस्त को दोपहर 1 बजे आयोजित की जाएगी।

	गर्य								

योजन	ना 'ए' ( गैर-संचित )	योजना 'बी' ( सर्वित )						
अवधि	व्याज दर प्रति वर्ष (%) सालाना देय	अवधि	व्याज दर प्रति वर्ष ( % ) वार्षिक चक्रवृद्धि	न्यूनतम जमा ( रु. )	परिपक्कता पर देव राशि ( रु. )	प्रभावी उपज प्रति वर्ष (%)		
1 साल	6.75	1 साल	6.75	1,00,000	1,06,750	6.75		
2 साल	7.25	2 साल	7.25	1,00,000	1,15,026	7.51		
3 साल	7.35	3 साल	7.35	1,00,000	1,23,710	7.90		

परिषत्र अथवा जमा आमंत्र परिषत्र अथवा जमा आमंत्र ( कंपनी ( जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 की धारा 73 (2)

निर्माणां प्रतानात तथा विकास में संस्ता है. की सामायक कोपनी द्वारा : उदाबुद सीमेंट कबर्म लिकिटेड, जीचींड नगर, पी.ओ. सीएकए-313021, उदाबुद, भारत (सीमेंट निर्मात) इंतर्यनों हे इंडर्जेड वर्ष ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, लिक हाइस, 4भी मीडल, ३, वहादुद शाह वसर मार्ग, वर्ड विकास निर्माणां निर्माणां में स्वानामी का व्यान

सामग्रा का ज्यापार) लिमिटेड, 4 था तल, नेहरू हाउस, 4, बहादुर शाह अफर मार्ग, नई दिखें-हरस, भूमि एवं भवन निर्माण, रखरखाण, म्हलैट, अपार्टमेंट्स आदि)

े निर्धार के अपनीय प्राणीनींदिद 4 था तथा, पेटर साहम, 4, पेटरूप रक्ता अन्य प्राणीन प्राणीनींदिद के भा तथा है, प्राणीन प्राणीनींदिद के भा तथा है, प्राणीनींदिद के स्थानित स्था

पार्थी ) प्राथमित हैं इ. सीमा क्षेत्रीयों कारियों कार्यों के साथ, पुनस्तार 2, 2021 १९३० कार विश्व के स्वरूप कर के इस्तार कर पार्थ के स्वाप्तार के स्वरूप 4,40210 कोरा में है कि होता है कि होता है कि होता है कि हो क

नाम	হাঁসাহ্ব্যন ক্ল.	पता	पेशा
ओ भरत हरि सिंघानिया (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकः)	00041156	पेट्रिक्ट डॉकस, ३, बहादूर शाह झफर मार्ग, वई दिल्ली-110002	उद्योगपवि
श्रीमती विनोता सिंधानिया (उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	00042983	नेहरू हाक्स, 4, यहादूर शाह क्षण्य मार्ग, नई दिल्ली-110002	उद्योगपति
डॉ. रधुपति सिंघानिया (गैर-कार्यकारी निदेशक)	00036129	पेट्रियट हॉडम, 3, बहादूर शाह इस्फर मार्ग, नई दिल्ली-110002	उद्योगपति
डॉ. एस. चौकसी (पुर्णकालिक निदेशक)	00040282	मेहक डाक्स, 4, महादूर शाह अपन मार्ग, नई दिल्ली-110002	नीकरो
बी एस.के. वाली (पूर्णकार्तिक निदेशक)	00044990	नेहरू हाऊस, ४, महादूर शाह इस्फर मार्ग, नई दिल्ली-110002	नीकरी
हो यो. थो. भागंव (श्वापंत्र शिदेशक)	00001823	ची-1201, गुलनोहर अवार्टमेंट, केसर रोड, (फिल्मलवा स्टूडियो के चास) अंबोली, अंधेरी (पश्चिम), मुंबर्ट- 400 058	कंपनी निदेशक
बी के.एन. मेमानी (स्थापंत्र निदेशक)	00020696	177-सी, घेस्टने एथेन्यू, लेन डब्ल्यू-7, सैनिक पर्श्न, नई रिजी-110062	स्यनियोजित
बी एन.जी. खेतान (स्वारंत्र निदेशक)	00020588	3, क्रॉस पार्क, कोलकाता-700019	ला में अटानी
त्री रवि शुंसुनवाला (स्थतंत्र विदेशक)	00060972	63, फ्रेंड्स कॉलोनी (पूर्व), गई दिली-110065	उद्योगपाँव
बीमतो भगवती मुक्तजी (स्यतंत्र निदेशक)	07173244	सी-135, सर्वोदया एन्वलेब, नई दिस्ते-110017	एवसेडर

िकारी में के अपना विकास प्रेमां को में को हों है हम पानत । कोई नहीं अपने प्रेमाण को प्रमान है किए 12 कर में 2011 (भी जा बात अपने का महिला करते हुए जा मान कर में प्रमान पास होने की तिथि । एनीएम 6 जा को अपने करते हैं किए के प्रमान करते हैं करता पान के प्रमान करते के उत्तर के प्रमान के प

	रु. कराड़ म
ए. <b>सदस्यों से</b> ; ( प्रदत्त शेयरपूंजी और मुक्त भंडार एवं सिक्यूरिटी ग्रीमियम खाते के कुल योग का 10 % )	201.32
वो. अन्य जमा : (प्रदत्त शेयरपूंजी और मुक्त भंडार एवं सिक्यूरिटी प्रीमियम खाते के कुल योग का 25 % )	503.31
कुल	704.63
इससे पिछले वित्तीय वर्ष के ऑडम दिन कसार: आयोजित जमा के कुल योग की राशि (अर्थात 31.03.2021 को)	65.20
परिपन्न अथवा विज्ञापन जारी होने की शिथि पर वस्तुत: आपीतित जमा का योग	74.64
बढ़ाने को प्रस्तावित जमा की ग्रींग	704.63
अगले बारह माह में पुतर्भुगतान योग्य जमा की राशि	18.67
ई ) जमा बढाने की अवधि :	-

साधन का जिसाय द्वायत्य का समय प का उच्च स्तर होना माना जाता है. ऐसे क्रेडिट जोखिम होता है.

(v) रेटिंग प्रत्य होने की तिथि : आई ) एंग्स पीत को मुस्तक हेतु निर्मेश च र्जानीन किए को चाले को धर का निवार को स्तिपीय अपना निरंतकों, डोमोटा अपना ऐंगे जमा में पूक्त कारवामान को अरुप सामाई रिटेंग्स और उस हैंट अब तक प्रभाव निवार के अन्य व्यक्ति अस्पर हैं.
5. किससी रोग उसम का विवारण : कोई नहीं

स्थातः । 4. कंपनी की विश्तीय स्थिति : ए) कर हेतु प्रावधान बगाने के पहले और पा से पहले के तीन विश्तीय वर्ष हेतु.

ह. करोड़ में कर के पूर्व लाभ कर के बाद लाभ समान वित्तीय वर्ष

परिपन्न अध्यक्ष विज्ञापन के जारी होने की	तिथि के पहले तीन सा	ल के लिए अविश्वित गर	दी प्रवाह विवरण :
कुल अंश पूंजी एवं देवताएं	4661.41	4549.86	4455.43
(डी) वर्तमान कर देवता (सुद्ध)	1.43	-	11.77
(सी) प्रावधान	5.08	5.49	5.97
(यी) अन्य वर्तमान देवताएं	270.67	217.52	206.11
वतमान दयता (ए) वित्तीय देवताएँ	1022.94	1108.01	1086,39
(डा) अन्य गर-वतमान दयताए वर्तमान देवता	184.50	181.34	175.64
(सी) विलॉबत कर देवताएं (सुद्ध) (सी) अन्य गैर-वर्तमान देवताएं	64.12	20.46	******
(यो) प्रावधान	13.54	11.41	10.85
(१) वित्तीय देवताएं	1020.21	1292.95	1436.03
गैर-वर्तमान देवता	10000000		
रेयता	10/1/2000	1265001573	
(ची) अन्य पूंजी	2020.07	1653.83	1463.82
अंशर्युजी (ए) अंश पुंजी	58.85	58.85	58.85
कुल संपात्तवा अंशवंजी एवं देवता	4001.41	+549.86	4455.43
(डा) यतमान कर एसद्स (शुद्ध) कल संपत्तियां	4661,41	1.79 4549.86	4455,43
(सा) अन्य कतमान संपालया (डी) वर्तमान कर एसेट्स (शुद्ध)	139.20		126.85
(मा) ावताय आस्तया (मो) अन्य वर्तमान संपत्तियां	0.000	594.70 117.15	126.85
(१) माल (बी) विलीय आस्तियां	315.50 848.44	412.84 594.70	311.70 500.10
2. वर्तमान संपत्तियां	November	ment	
(डी) अन्य गैर-वर्तमान संपत्तियाँ	28.06	39.61	28.39
(सी) विलॉब्ड कर देवडा (शुद्ध)			22.03
(बी) विसीय परिसंपशियां	440.76	428.17	416.29
(सोडच्ल्यूआईपी सहित)	2899.43	2933.00	
<ol> <li>नान करट युसद्स</li> <li>मंपति, प्लांट एवं उपकरण</li> </ol>	2889.45	2955.60	3050.07
संपत्ति 1. बॉन करंट एसेंटस			
विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019

पार्थित हैं. अमिरिया प्रांथ होने से पहले केरनी हुएत उनीकृत क्या चुकता किया गया है. (अनवा एक वर्ष में अम्बार चुकता होने कह प्याप्त धरित जुकता होगा, ये पास अमुर्तियत और अस्य अमुर्तित रहेता के स्वाप्त चुकता होने केरने में में स्वाप्त प्रांत के स्वाप्त में स्वाप्त करीं केरना अमुर्तित रहेता के ब्रोहिट ऐटिन में किसी प्रतिकृत परिवर्तन के प्राप्त में ने नामकर्ताओं को किसी देव के विश्व क्या निकारने का अस्यार दिना कारण. क्या प्राप्त केरना प्राप्त स्वाप्त कारण विवारन के तम में परिचर में निर्मित ट्रोइन्से के तिल् किया

कारण कंपनी द्वारा स्वीकृत जमा (सुर्राधत नमा के अलावा अन्य, यदि कोई, निर्दिष्ट किए जाने वाले कुल रामि) कंपनी की अन्य असर्राधत देपताओं सहित तक ही वक में रैंक और असर्राधत हैं.

6



कृते एस.एस. कोठारी मेहता एंड व वर्टड अकाउंटर फर्म पंजीवन क. 000756 सुनिल वह पर्टन, स्ट्स्च क. 08729

र्व किसी भी इलत में यह नहीं मयहा अथवा लयना जाए कि वह रॉक्ट्रार अथवा केंद्र मनकार द्वारा किस्तर अथवा अथवा आणील की जा गृहें है, वहें अधिक सुदुवता के लिए और नहीं परिश्व अथवा विद्वारण के प्रारूप में प्यक्त हैं



# **FINANCIAL EXPRESS**

unitech UNITECH LIMITED

Place: New Delhi

Dated: 26" August, 2021

CIN: L74899DL1971PLC009720 Regd. Office: Basement, 6, Community Centre, Saket, New Delhi-110 017

Tel. / Fax: 011-26857338 E-mail: share.dept@unitechgroup.com Web; www.unitechgroup.com **PUBLIC NOTICE** 

Notice is hereby given that the under mentioned Share Certificate(s) of the Company bearing face value of Rs. 2/-- each has been reported as lost / misplaced and the registered holder(s) of the Share Certificate(s) has applied to the Company for issuance of duplicate Share Certificate(s): Name of Shareholder(s) No. of Shares Share Folio No. Distinctive Nos. Certificate No

Ram Ratan Modi 10400 1273 5506211-5507010 28512021-128521620 879525181-879535580 The public is hereby advised/cautioned not to deal in any way with the aforesaid share certificates Any person(s) who has/have any claim, in respect of the above mentioned share certificate(s) should communicate to the undersigned within fifteen days from the date hereof with supporting of his/her claim. The Company will proceed to issue the duplicate. Share Certificate(s) after the expiry of

FOR UNITECH LIMITED

(K. C. Sharma) Company Secretary

GUJARAT ENERGY TRANSMISSION CORPORATION LIMITED. Sardar Patel Vidyut Bhavan, Race Course, Vadodara 390 007 e-TENDER NOTICE INVITING TENDERS OF GETCO CORPORATE OFFICE, VADODARA GETCO: www.getcogujarat.com Dept-GOG: http://guj-epd.gov.in

(2) C.E.(Proc. & Contract)/1502/V/Printing-ARC/2021-22 [B] S/S: CE(P&C)/Contracts/E-2/Substation/CCTV/S,1&C Supply, Installation & Commissioning of CCTV Camera Surveillance System at various 66 KV to 400 KV class Substation of GETCO under Bharuch Zone.

Tender Notice No. CE(P&C):TN - 10:21-22

[A] PROCUREMENT : (1) CE(P&C)/EE(Proc)/I/E-2842R/RTU Panel/ 2021-22

[C] LAND: CE(Project)/SE(Planning)-TN-4 Land for Substation in Tribal area Above Tender are available on web-site www.gseb.com & www.getcogujarat.com (for view and download only) & https://getco.nprocure.com (For view, download and on line tender submission).

Note: Bidders are requested to be in touch with our website till opening of the Tender "The less you burn, the more you earn" Chief Engineer (Procurement & Contracts)



Corporate Office: Nehru House, 4, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 Tel.No. 011-66001142/66001112, Fax No. 91-011-23722251/23722021 Email: jklc.customercare@jkmail.com, Website: www.jklakshmicement.com CIN: L74999RJ1938PLC019511

SCHEME '	A' - (Non-Cumulative)	SCHEME 'B' - (Cumulative)						
Period	Rate of Interest per annum (%) payable Annually	Period	Rate of Interest Per Annum (%) Compounded Annually	Minimum Deposit (Rs.)	Amount Payable on Maturity (Rs.)	Effective Yield P. A. (%)		
1 Year	6.75	1 Year	6.75	1,00,000	1,06,750	6.75		
2 Years	7.25	2 Years	7.25	1,00,000	1,15,026	7.51		
3 Years	7.35	3 Years	7.35	1,00,000	1,23,710	7.90		

# FORM DPT-1

# CIRCULAR OR CIRCULAR IN THE FORM OF ADVERTISEMENT INVITING DEPOSITS

[Pursuant to Section 73 (2) (a) and Section 76 and Rule 4(1) and 4(2) of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014] (H) Credit rating obtained

GENERAL INFORMATION (a) Name, Address, Website and other contact details of the Company:

Name: JK Lakshmi Cement Ltd. Regd. Off.: Jaykaypuram, District Sirohi -307 019 (Rajasthan).

Corporate Off.: Nehru House, 4, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002. Tel. No. 011-66001142/66001112, Fax No. 91-011-23722251/23722021,

Website & Email: www.jklakshmicement.com, kamal@jkmail.com/ jklc.customercare@jkmail.com Date of incorporation of the Company: 6th August 1938

Business carried on by the Company and its subsidiaries (direct & indirect) with the

details of branches or units, if any: By the Company: The Company is engaged in manufacturing / Production and sale of Cement & Cementitious Products.

i. Udaipur Cement Works Limited, Shripati Nagar, CFA Dabok - 313021, Udaipur, Rajasthan (Cement Manufacturer)

Hansdeep Industries & Trading Company Limited, Patriot House, 4th Floor, 3, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 (Trading of Cementitious Materials) Ram Kanta Properties Private Limited, Nehru House, 4th Floor, 4, Bahadur Shah Zafar Marg,

New Delhi-110 002 (Acquiring, Developing, Constructing, Maintaining the Land & Buildings, (a) Amount Outstanding:

Cement Plant - Jaykaypuram, District Sirohi - 307019 (Rajasthan)

ii. Cement Plant - Malpuri, Khurd, Ahiwara, District Durg -491001 (Chhattisgarh) iii. Cement Grinding Unit- Motibhoyan Kalol, District Gandhinagar-382010 (Gujarat) iv. Cement Grinding Unit- Village Bajitpur, P.O. Jhamri, District Jhajjar - 124507 (Haryana)

v. Cement Grinding Unit- Village Dastan, Taluka Palsana, District Surat-394310 (Gujarat) vi. Cement Grinding Unit- Village Ghantikhal, Radgasgyampur, P.O. Khutuni, Tal, Athagarh Distt Cuttak-754029 (Odhisha)

vii. Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Blocks Unit - Village Bajitpur, P.O. Jhamri, District Jhajjar

The Company has Following Regional Offices:

i. 304, Dev Arc Mall, Near Fun Republic, Iskon Circle, S.G. Highway, Satelite 717A, G.T. Road, Opp. Guru Sharan Hospital, Near Ganesha Bus Stop, Bhatinda - 15100

1/3. Rakesh Marg. Near R.K. Banquet Hall, G.T. Road, Ghaziabad - 201001

iv. 305, Apex Mall, IInd Floor Lal Kothi Scheme, Tonk Road, Jaipur - 302015 v. Kasturi Building, Jamshedji Tata Road, Mumbai-400020

5th Floor, ACE Global , G.E. Road, Opp. Minocha Petrol Pump, Telebandha, Raipur – 492001

vii. HIG 25, BDA Colony, Jaydev Vihar, Bhubaneswar-751013 viii. SAS Business Centre, Level 5, Landmark Wardha Road, Ramdaspeth, Nagpur-440010

The Company has Following RMC Plants:

i. Plot No.563/2/2, Ashwamgh Indl. Estate, Opp.M.N.Desai Petrol Pump, Changodar, Bavla Road, Ahmedabad - 382110

 Plot No.754, Dumad-Savli Road, Village Dumad, Vadodara – 391740 Plot No.D-25, Site-B, Surajpur Industrial Area, Greater Noida – 201306 iv. E-123, Malviya Industrial Area, Malviya Nagar, Jaipur - 302017

v. Block No. 240P, Near Essar Petrol Pump, Jolva, Kadodara-Bardoli Road, Surat - 394305 vi. Plot No. 832 Industrial Area, Phase- IV, Baronada, Jodhpur - 342012

vii. F-196-197, RICCO Industrial Area, Khuskhera, Distt, Alwar - 301707 viii. Plot No.A-519, Road No. 7, Inderprastha Industrial Area, Jhalwar Road, Kota - 324005

ix. B-50, Phase-VI, Opp. Verka Milk Plant, Mohali - 160055

x. Plot No. 41 Phase-III, GIDC Estate.NH No. 8, Naroda, Ahmedabad - 382330 xi. B-126 A, Road No.2, Near Ford Showroom, Madari Industrial Area, Udaipur -313003

Plot No.A-16/3, Ichchapora, GIDC, Village Bhatpore, Surat – 394510

(d) Brief Particulars of the Management of the Company:

The Company is managed by Chairman and Managing Director, Vice Chairman & Managing Director, the Whole-time Directors under the superintendence, control and direction

(e) Name, Address, DIN and Occupations of the Directors: Name DIN No. | Address Occupation Shri Bharat Hari Singhania 00041156 Patriot House, 3, Bahadur Shah Industrialis (Chairman & Managing Director) Zafar Marg. New Delhi-110 002 00042983 Nehru House, 4, Bahadur Shah Smt. Vinita Singhania Industrialist (Vice-Chairman & Managing Director) Zafar Marg, New Delhi-110 002 00036129 Patriot House, 3, Bahadur Shah Dr. Raghupati Singhania Industrialist (Non Executive Director) Zafar Marg, New Delhi-110 002 Nehru House, 4, Bahadur Shah Dr. S. Chouksey Service (Whole time Director Zafar Marg, New Delhi-110 002 Shri S. K. Wali 00044890 Nehru House, 4, Bahadur Shah Service Zafar Marg, New Delhi-110 002 (Whole time Director Shri B.V. Bhargava 00001823 B-1201, Gulmohar Apartments, Company (Independent Director) Ceaser Road, (Near Filmalaya Studio) Amboli, Andheri (West) , Mumbai - 400 058 Dr. K. N. Memani 00020696 177-C, Western Avenue, Lane W-7, Sainik Farm, New Delhi-110 062 (Independent Director) employed Shri N. G. Khaitan 00020588 3, Queen's Park, Attorney (Independent Director) at Law

07173244 C-135, Sarvodaya Enclave, Amb. Bhaswati Mukherjee (f) Management's perception of risk factors: The cement business is cyclical in nature and highly volatile, cement demand is dependent on various external factors including state of economy, government policies and schemes on development of infrastructure and housing, fiscal measures, monsoon and rural development, rise in the logistic and fuel costs and fluctuations in the prices of key raw materials such as petcoke, coal, flyash etc. may have (d) Audited Cash Flow Statement for the three years immediately preceding the date of substantial bearing on the margins and profitability.

00060972 63. Friends Colony (East),

New Delhi-110 065

Industrialist

Details of default, including the amount involved, duration of default and present

(i) statutory dues: None, the Company is regular in depositing statutory dues with the appropriate authorities other than those which are sub-judice.

(ii) debentures and interest thereon: None

(iii) Ioan from any bank or financial institution and interest thereon: None PARTICULARS OF THE DEPOSIT SCHEME :

(A) Date of passing of Board Resolution: 20th May 2021

Shri Ravi Jhunjhunwala

(Independent Director)

(B) Date of passing of resolution in the general meeting authorizing the invitation of such deposits: Annual General Meeting held on 04th September, 2014 C) Type of deposits, i.e., whether secured or unsecured: Unsecured

(D) Amount which the Company can raise by way of deposits as per the Act and the rules

made thereunder and the aggregate of deposits actually held on the last day of the immediately preceding financial year and on the date of issue of the Circular or (a) the Company has not defaulted in the repayment of deposits accepted either before or after advertisement and amount of deposit proposed to be raised and amount of deposit repayable within next twelve months:

	ts. In cro
<ul> <li>(a) From Members (10% of the Aggregate of the paid - up share capital, free reserves and Securities Premium Account)</li> </ul>	201.32
(b) Other Deposits (25% of the Aggregate of the paid - up share capital, free reserves and Securities Premium Account)	503.31
Total	704.63
Amount of the aggregate of deposits held on the last day of the immediately preceding financial year: (i.e. 31.03.2021)	65.20
Amount of deposits held on the date of issue of the Circular or advertisement	74.64
Amount of deposit proposed to be raised	704.63
Amount of deposit repayable within the next twelve months	18.67

1-7						amount of which to be indicated) are unsecured and rank part passu with other unsecured	
SCHEME 'A' (Non-Cumulative) SCHEME 'B' (Cumulative)							liabilities of the Company.
Period	Rate of Interest Per Annum (%) Payable Annually	Period	Rate of Interest Per Annum (%) Compounded Annually			Effective Yield Per Annum (%)	This CIRCULAR OR CIRCULAR IN THE FORM OF ADVERTISEMENT INVITING DEPOSITS is being issued under the authority and in the name of the Board of Directors of the Company and its text has been duly approved by the Board of Directors at its Meeting held on 20.05.2021 and a copy thereof signed by majority of directors on the board of the company will be delivered to the Registrar of Companies, Rajasthan for registration.
1 Year	6.75	1 Year	6.75	1,00,000	1,06,750	6.75	By Order of the Board
2 Years	7.25	2 Years	7.25	1,00,000	1,15,026	7.51	Place : New Delhi for JK Lakshmi Cement Ltd.
3 Years	7.35	3 Years	7.35	1,00,000	1,23,710	7.90	Date: 27th August, 2021 B. K. Daga Sr. VP & Company Secretary
0.50% add	ditional interest to	Senior	Citizen (above 6	0 yrs.), Em	playees, Sh	areholders, -	Certificate of the Statutory Auditor issued pursuant to the Companies (Acceptance of Deposits)

Mode of payment and repayment: Cheque/Draft/RTGS/NEFT

(F) Proposed time schedule mentioning the date of opening of the Scheme and the time period for which the circular or advertisement is valid:

Date of opening of the Scheme The scheme will open from the date, following the day of the Annual General Meeting to be held in the year 2021 subject to regulatory provisions, as may be applicable The circular is valid up to the date of the next AGM or within six months from the close of the next Financial Year 2021-22, whichever is earlier. (G) Reasons or objects of raising the deposits: To Support business operations

Certificate of the Statutory Auditor issued pursuant to the Companies (Acceptance of Deposits Amendment Rules, 2018, which came into force on 15th August 2018

This is to certify that JK Lakshmi Cement Ltd. has not committed default in the repayment of the public deposits or in the payment of interest on such deposits accepted either before or after the commencement of the Companies Act, 2013.

for S. S. Kothari Mehta & Company Chartered Accountant Firm's Registration Number: 000756N

Disclaimer-Its to be distinctly understood that filing of circular or circular in the form of advertisement with the registrar should not in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved

**XCHANGING SOLUTIONS LIMITED** 

(a DXC Technology Company) DXC CIN: L72200KA2002PLC030072 Registered Office: Kalvani Tech Park - Survey No 1, 6 & 24. Kundanhalli Village, K R Puram Hobli, Bengaluru – 560 066, Karnataka, India **Tel:** +91 - 80 - 4364 0000

# NOTICE OF THE 20<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO **CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS**

Email: compliance@xchanging.com Website: www.dxc.com

NOTICE is hereby given that the 20th Annual General Meeting ("AGM") of Xchanging Solutions Limited ("XSL"/ "Company") will be held on Monday, September 27, 2021 at 11:00 A.M (IST) to transact the business as set out in the Notice of the AGM which will

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA" has vide its General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020; 17/2020 dated April 13. 2020; 20/2020 dated May 05, 2020; 02/2021 dated January 13, 2021 (hereinafter collectively referred as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred as "SEBI Circulars") have permitted the holding of AGM through VC or OAVM, without the physical presence of members at a common venue. Accordingly, in compliance with these MCA Circulars and SEBI Circulars and the relevant, provisions of the Companies Act, 2013 ("The Act") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") the AGM of the members of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Monday. September 27, 2021 at 11:00 A.M (IST).

The Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21, including the financial statements for the financial year ended March 31, 2021, will be sent only by electronic mode to those members. whose e-mail addresses are registered with the Company Registrar and Share Transfer Agent / Depositaries in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020 ("SEBI Circulars"). Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for the year 2020-21 will also be available on the Company's Website at https://www.dxc.com/in/en/aboutus/xchanging-solutions-limited-investor-relations, websites of the stock exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and website of KFin Technologies Private Limited ("RTA") at https://evoting.kfintech.com. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Company is providing Remote e-Voting facility ("Remote e-Voting") to all its

Members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-Voting system during the AGM ("e-Voting"). The manner of participation in the Remote e-Voting or casting vote through e-Voting system during the AGM will be provided in the Notice of

the Company/RTA can get their email IDs registered/updated with RTA by using link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx and follow the registration process as guided thereafter or alternatively member may send an e-mail request at the email id einward.ris@kfintech.com. The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, September 21, 2021 to Monday September 27, 2021 (both days

Members who have not registered/updated their e-mail addresses with

inclusive) for the purpose of AGM. The Shareholders are also requested to refer to the Notice of the AGM for more details on process to be followed from their side, if any, in The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in Compliance with the MCA Circulars and the SEBI

Circulars. The Notice of AGM and Annual Report 2020-21 will be sent to shareholders in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course.

For Xchanging Solutions Limited

**Aruna Mohandoss** Company Secretary Date: August 26, 2021

UFQ

Place: Bengaluru

# **UFO Moviez India Limited**

CIN: L22120MH2004PLC285453. Regd. and Corporate Office: Valuable Techno Park, Plot #53/1, Road #7, MIDC, Marol, Andheri (E), Mumbai - 400093 Tel: +91 22 40305060 Fax: +91 22 40305110

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF UFO MOVIEZ INDIA LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) AND OTHER AUDIO VIDEO MEANS (OAVM)

# NOTICE is hereby given that the 17" Annual General Meeting ("AGM") of the members of UFO Moviez India Limited ("the Company") will be held on Monday, September 20,

2021 at 03.00 PM IST, through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of the Members at a common venue, in compliance with General Circular dated January 13, 2021 read with General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021 ('SEBI Circulars') to transact the business set out in the Notice convening the AGM. Members are provided with a facility to attend the AGM through electronic platform

provided by Company's Registrar and Transfer Agent viz. KFin Technologies Private Limited ("KFintech"). Members are requested to visit https://emeetings.kfintech.com/ by using the e-voting login credentials provided to them and follow the instructions mentioned in the Notice of the AGM. The proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company which shall be the deemed Venue of Notice of the AGM along-with the Annual Report of the Company for the financial year

ended on March 31, 2021 which inter-alia comprises the Standalone and Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended March 31, 2021 and Report of the Board of Directors and Auditors Report thereon ("the Annual Report") will be electronically sent to the members whose email address is registered with Depository Participant(s)/the Company/KFintech in accordance with the MCA Circulars

The Notice of the AGM and the Annual Report will be made available on the website of the Company at https://www.ufomoviez.com/investor, on the website of the RTA at https://evoting.kfintech.com and on the websites of BSE Limited at https://www.bseindia.com/ and National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com/.

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and in terms of SEBI vide circular no SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020, the Members are provided with the facility to cast their vote remotely on all resolutions set-forth in this notice. Information and instructions comprising manner of voting, including voting remotely by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email address has been provided in the Notice ofAGM

The remote e-voting will commence on Friday, September 17, 2021 at 9:00 a.m. (IST) and will end on Sunday, September 19, 2021 at 5:00 p.m. (IST) and thereafter the remote e-voting module shall be disabled. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on Monday, September 13, 2021 ("the cut-off date") shall be entitled to cast vote through remote e-voting or e-voting during AGM. The voting rights of the members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date.

information purposes only. Once the vote on a resolution stated in the AGM Notice is cast by member through remote e-voting, the member shall not be allowed to change it subsequently and such vote which has been cast using remote e-voting shall be treated Members attending the e-AGM who have not already cast their vote by remote e-voting

will be able to cast their vote electronically during the AGM (when window for e-voting is activated upon instructions of the Chairman). The Members may participate in the e-AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM.

existing User ID and password for casting the vote. In case of Individual Shareholders holding securities in demat mode and who acquires

shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date may follow the steps mentioned in the Notice of the AGM Members who have not registered their e-mail address are requested to register the

same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited, Selenium, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nankramguda, Hyderabad-500 032.

Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of https://evoting.kfintech.com (KFintech Website) or contact B Srinivas, at einward.ris@kfintech.com and evoting@kfintech.com or call KFintech's toll free No. 1-800-309-4001 for any further clarifications. For UFO Moviez India Limited

E2E Networks Limited CIN: L72900DL2009PLC341980

Read. Office: Awfis, First Floor, A-24/9, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, Saidabad, New Delhi-110044, Phone +91-11-39235393, Email: investors@e2enetworks.com, Website: https://www.e2enetworks.com/

> NOTICE OF THE 12<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

In compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI, NOTICE is hereby given that the 12th Annua General Meeting ('AGM') of the Members of E2E Networks Limited ('Company') will be held on Wednesday, September 22, 2021 at 4.00 p.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ('VC/OAVM'), without the physical presence of the Members at the AGM, to transact the business as set out in the AGM Notice.

The AGM Notice along with the Annual Report for FY 2020-21 has been sent only through

electronic mode to those Members whose email ids are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ('RTA')/Depository Participant ('DP'). The emailing/dispatch of AGM Notice to all members has been completed on August 26, 2021 The aforesaid documents are also available on the Company's website a www.e2enetworks.com, websites of the Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of Link Intime India Private Limited ("LIIPL") at www.linkintime.co.in. Members whose email ids are already registered with the Company/RTA/DP, may follow the instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at AGM as provided in the AGM

Notice. Members holding the shares in physical and demat form who have not registered

their e-mail addresses with the Company/RTA or with the respective DPs can temporarily get their email IDs registered with the Company by emailing at investors@e2enetworks.com and follow the temporary registration process as guided thereafter, to receive the Notice of AGM and Annual Report for FY 2020-21 through email and/ or receiving instructions for attending the AGM through VC/ OAVM. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. Members will be provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote e-Voting facility (before the AGM) and e-Voting facility (at the AGM), on all the resolutions set forth in AGM Notice. The facility of casting votes will be provided by LIIPL

In this regard, all the Members are further informed that: The business as set forth in the 12<sup>th</sup> AGM Notice will be transacted through voting by electronic means in the form of e-voting.

The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity

Facility for e-Voting at the AGM will be made available to those Members who are present in

the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through

remote e-Voting. The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the

AGM may also attend/ participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be eligible to

share capital of the Company as on Wednesday, September 15, 2021 i.e. cut-of date. Any person who is a member of the Company as on cut-off date is only eligible to cast vote electronically through remote e-Voting or e-Voting at the AGM. . Any person who acquires shares of the Company and becomes members of the

Company after sending the notice of the AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Wednesday, September 15, 2021, may obtain the login ID and password by sending an email to investors@e2enetworks.com or enotices@linkintime.co.in by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID. The remote e-voting period shall commence on Sunday, September 19, 2021

(9.00 a.m. IST) and end on Tuesday, September 21, 2021 (5.00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by LIIPL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change 5. Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the AGM and instructions

for attending the AGM through VC/OAVM is being provided in the AGM Notice. 6. In case the members have any queries or issues regarding e-voting, please refer the

Frequently Asked Questions ("FAQs") and INSTAVOTE E-Voting Manual available a https://instavote.linkintime.co.in, under help section or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in or call at Tel: 022 - 4918 6000 or they may connect with the Company by emailing at investors@e2enetworks.com. For E2E Networks Limited

Neha Baid

Company Secretary Cum Compliance Officer Place: Delhi

Email: tvinfo@sunnetwork.in Website: www.suntv.in

Sun TV Network Limited Registered Office: Murasoli Maran Towers, 73, MRC Nagar Main Road, MRC Nagar, Chennai - 600 028. Tel. No. 044-44676767 Fax: 044-40676161

NOTICE is hereby given that the 36" Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, 17th September, 2021 at 10:00 a.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"). In view of the massive outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), physical attendance of the Members to the EGM / AGM venue is not required and Annual General Meeting (AGM) be held through VC or OAVM. The Board of Directors of the Company has decided to adopt the above guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI in conducting Annual General Meeting of the Company. Hence, Members can attend and participate in the ensuing Annual General Meeting through VC / OAVM, which may not require physical presence of members at a common venue. The deemed venue for the AGM hall be the Registered

n compliance with the above said Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depositories. Members may note that the Notice and Annual Report 2020-21 will also be available on the Company's website www.suntv.in, websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, M/s. KFin Technologies Private Limited (KFintech) at https://evoting.kfintech.com.

Members holding shares in physical mode and who have not registered / updated their

email address with the Company are requested to register / update the same by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Kfintech or by sending an email request to them at their email ID einward.ris@kfintech.com, along with signed scanned copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested copy of PAN Card and share certificate. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of

the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Regulrements) Regulations. 2015 (as amended) and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the ICSI and MCA Circulars, the Company shall provide the facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Kfintech for facilitating voting through

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. September 8, 2021 only shall been titled to avail the facility of remote e-voting. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after August 20, 2021 being the date reckoned for the dispatch of the AGM Notice and Annual Report and who holds shares as on the cut-off date i.e. September 8, 2021 or has registered his / her / its email address after the dispatch of the AGM Notice, he / she / it may obtain the User ID and Password by sending an email to einward.ris@kfintech.com. by mentioning their Folio No./ DP ID and Client ID No. Members can attend and participate in the AGM only through C/OAVM facility, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the

The e-voting period will commence from Tuesday, September 14, 2021 at 9.00 a.m. and will end on Thursday, September 16, 2021 at 5.00 p.m. Members will not be able to cast their vote through remote e-voting beyond the said date

and time and the remote e-voting module shall be disabled by KFintech thereafter. Additionally, the facility for e-voting shall also be made available at the time of AGM for

Mrs. Lakshmmi Subramanian, Practising Company Secretary, Chennal has been appointed as Scrutinizer for conducting the voting process (electronically or otherwise) in

a fair and transparent manner. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.suntv.in and website of Kfintech https://evoting.kfintech.com and

simultaneously communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, Mumbai, where the Company's shares are listed, not later than two working days after the conclusion of AGM. Any query/grievance in relation to voting by electronic means can be addressed to

Company Secretary & Compliance Officer, Sun TV Network Limited, Murasoli Maran Towers, 73, MRC Nagar Main Road, MRC Nagar, Chennai - 600 028. Tel: +91 44 4467 6767 Fax: +91 44 4067 6161 Email: tvinfo@sunnetwork.in, or M/s. KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Gachibowli Financial District, Hyderabad - 500 032, phone no. 040-67162222 and Toll free No. 1800-309-4001 or send an email to einward.ris@kfintech.com for any further clarifications.

For Sun TV Network Limited

Place : Chennai Date: 26.08.2021 Company Secretary & Compliance Officer

# "IMPORTANT"

contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

financialexp.epag.in

Regd. Office: Jaykaypuram, District Sirohi -307 019, (Rajasthan)

**INVITES FIXED DEPOSITS** 

SCHEME	'A' – (Non-Cumulative)	SCHEME 'B' - (Cumulative)								
Period	Rate of Interest per annum (%) payable Annually	Period	Rate of Interest Per Annum (%) Compounded Annually	Minimum Deposit (Rs.)	Amount Payable on Maturity (Rs.)	Effective Yield P. A. (%)				
1 Year	6.75	1 Year	6.75	1,00,000	1,06,750	6.75				
2 Years	7.25	2 Years	7.25	1,00,000	1,15,026	7.51				
3 Years	7.35	3 Years	7.35	1,00,000	1,23,710	7.90				
0.50% additiona	I interest to Senior Citizen (above 60	yrs.), Employees	, Shareholders, - max 0.50%							

(i) Name of the Credit Rating Agencies: CARE Ratings Ltd. (ii) Rating obtained:

(iii) Meaning of the rating obtained:

CARE AA(FD) (Double A (Fixed Deposits)) Instruments are considered to have high Degree of Safety regarding timely servicing of financial

(iv) Date on which rating was obtained: 01.07.2021

Short particulars of the charge created or to be created for securing such deposits, if any: (J) Any financial or other material interest of

the directors, promoters or key managerial personnel in such deposits and the effect of such interest in so far as it is different from the interests of other persons 3. DETAILS OF ANY OUTSTANDING DEPOSITS

Rs 65.20 Crore as on 31st March, 2021 (b) Date of acceptance On or before 31st March, 2021 (c) Total amount accepted 2020-21 : Rs.47.31 Crore (d) Rate of interest (p.a) 1 Yrs 2 Yrs 6.75 % 7.25% As on 31st March 2021

(0.50% additional interest to Senior Citizen (above 60 yrs.), Employees, Shareholders -

obligation. Such Instruments carry very low credit

7.35%

4.39

Rs. in Crore

Not Applicable

max 0.50%) (e) Total number of depositors : (f) Default, if any, in repayment of deposits and payment of interest thereon, if any,

31st March, 2019

31st March, 2020

and duration of default involved (g) Any waiver by the depositors, of interest accrued on deposits: I. FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY

including number of depositors, amount

(a) Profits of the Company, before and after making provision for tax, for the three financial years immediately preceding the date of issue of circular or advertisement: Rs. in Crore Financial Year Ended Profit before tax Profit after tax

	31st March, 2020	339,46	236.11							
(b)	31st March, 2021 496.59 366.24									
	Dividends declared by the Con coverage ratio for last three year									
	Financial Year Ended	Dividend declared (Rs. in Crore)	Interest Coverage Ratio							
1	31st March, 2019	8.83 (15%)	2.51							

29.42 (50%)

104.43

31st March, 2021 44.13 (75%) 6.06 Excluding Dividend Distribution Tax of ₹ 1.81 Crs, ₹ 6.05 Crs. for F.Y. 2018-19 F.Y. 2019-20, respectively

(c) A summary of the financial position of the Company as in the three Audited Balance Sheets immediately preceding the date of issue of circular or advertisement:

Particulars	31st March, 2021	31st March, 2020	31st March, 2019
ASSETS			
(1) Non-Current Assets			
(a) Property, Plant and Equipment (Including CWIP)	2889.45	2955.60	3050.07
(b) Financial Assets	440.76	428.17	416.29
(c) Deferred Tax Assets (Net)	3355435007	67,889,00	22.03
(d) Other Non-Current Assets	28.06	39.61	28.39
(2) Current Assets	00000000	(0.000000000000000000000000000000000000	353,000,000
(a) Inventories	315.50	412.84	311.70
(b) Financial Assets	848.44	594.70	500.10
(c) Other Current Assets	139.20	117.15	126.85
(d) Current Tax Assets (Net)	2000000	1.79	10000
TOTAL ASSETS	4661.41	4549.86	4455.43
EQUITY AND LIABILITIES			
EQUITY			
(a) Equity Share Capital	58.85	58.85	10.000,000,000
(b) Other Equity	2020.07	1653.83	1463.82
LIABILITIES			
Non-current Liabilities	-1000 04	4000.05	4400.00
(a) Financial Liabilities	1020.21	1292.95	300000000
(b) Provisions	13.54	11.41	10.85
(c) Deferred Tax Liabilities (Net)	64.12	20.46	99332123
(d) Other Non-Current Liabilities	184.50	181.34	175.64
Current Liabilities	000000000000000000000000000000000000000	199355555	9452949555
(a) Financial Liabilities	1022.94	1108.01	1086.39
(b) Other Current Liabilities	270.67	217.52	206.11
(c) Provisions	5.08	5.49	5.97
(d) Current Tax Liabilities (Net)	1.43		11.77
TOTAL COURTY AND LIABILITIES	1004.44	1510.00	44FF 40

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 4661.41 4549.86 4455.43 issue of circular or advertisement: 31st March, 31st March, 31st March, 2021 2020 541.25 Net Cash from Operating Activities 862.18 689.45 Net Cash from / (used in) Investing Activities (327.61)(172.20)(94.56)Net Cash from / (used in) Financing Activities (490.65) (604.53)(369.26) Increase/(Decrease) in Cash and Cash equivalents 43.92 (0.21)(9.64)Cash and Cash Equivalents as at the beginning of 1.74 1.95 11.59

(e) Any change in accounting policies during the last three years and their effect on the profits and the reserves of the Company.

Cash and Cash Equivalents as at the close of the year

prepared as per IND-AS 5. A DECLARATION BY THE DIRECTORS THAT the commencement of the Act or payment of interest thereon

(b) the board of directors have satisfied themselves fully with respect to the affairs and prospects

of the Company and that they are of the opinion that having regard to the estimated future

financial position of the Company, the Company will be able to meet its liabilities as and when they become due and that the Company will not become insolvent within a period of one year from the date of issue of the circular or advertisement; (c) the Company has complied with the provisions of the Act and the rules made there under (d) the compliance with the Act and the rules does not imply that repayment of deposits is guaranteed by the Central Government: (e) the deposits accepted by the Company before the commencement of the Act have been

repaid (or will be repaid along with interest thereon as and when claimed and until they are

repaid, they shall be treated as unsecured and ranking pari passu with other unsecured

(f) In case of any adverse change in credit rating, depositors will be given a chance to withdraw deposits without any penalty (g) the deposits shall be used only for the purposes indicated in the Circular or circular in the (h) the deposits accepted by the Company (other than the secured deposits, if any, aggregate amount of which to be indicated) are unsecured and rank pari passu with other unsecured

Place: New Delhi

Date: 25.08.2021

B. K. Daga Sr. VP & Company Secretary

1.74

Financial Accounts have been

1.95

45.66

Sunil Wahal Membership Number 087294 UDIN: 21087294AAAAJT2023

by the Registrar or Central Government Does not take any responsibility either for the financial soundness of any deposit scheme for which the deposit is being accepted or invited or for the correctness of the statements made for opinions expressed in the circular or circular in the form of advertisement. The depositors should exercise due diligence before investing in the deposits schemes.

Place: Mumbai

Date : August 26, 2021

Kavita Thadeshwar Company Secretary

New Delhi

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the

A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for

Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com. However, if he / she is already registered with KFintech for remote e-Voting then he /she can use his / her

In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means,

Date: August 26, 2021 Email: investors@ufomoviez.com / Website: www.ufomoviez.com;

Membership No: A24023

Office of the Company.

Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right through e-voting during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting at the AGM are provided in the Notice.

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its

R. Ravi